

**\*@shahjahanpurpol\***

**प्रे\*स नोट-सराहनीय कार्य दिनांक 13.09.21\***

**\*थाना कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी\***

**\*लगभग 24 माह से धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे 25,000/- का इनामी अपराधी पिन्टू शाह गिरफ्तार\* ।**

दिनांक 04.09.2019 को वादी \*श्री जैजैराम मालिक फर्म श्री तिरुपति बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी पुत्र श्री छोटेलाल निवासी मोहल्ला बीबीजई थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 464/2019 धारा 420 / 406 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसमें अभियुक्त **पिन्टू शाह पुत्र स्व0 नथूनी शाह निवासी मोहल्ला लक्ष्मीनगर केलुहा पैगम्बरपुर बैरिया थाना अहियापुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार** द्वारा वादी से पशु आहार डिलिवरी के नाम पर अपने खाते में 03 लाख रुपये डलवा लिये थे और अपना मोबाइल नम्बर बन्द करके फरार था\* । उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु काफी प्रयास किये गये, परन्तु गिरफ्तार नहीं हो सका और न ही माननीय न्यायालय में हाजिर हुआ, लगातार फरार चल रहा था । गिरफ्तार न होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर द्वारा उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25,000/- रुपये का पुरुषकार घोषित किया गया ।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम व वाछित चल रहे अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में व श्री सरवणन टी, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई ।

इसी क्रम में श्री हरपाल सिंह बालियान, प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी जिसको दिनांक 10.09.2021 को मुजफ्फरपुर बिहार रवाना किया गया था जिनके द्वारा सूज-बूझ एवं काबिलियत का परिचय देते हुए **इनामी अपराधी पिन्टू शाह** को दिनांक 11.09.2021 को समय करीब 14.40 बजे अभियुक्त के घर **लक्ष्मीनगर केलुहा पैगम्बरपुर बैरिया जनपद मुजफ्फरपुर बिहार** से गिरफ्तार कर थाना कोतवाली चौक शाहजहाँपुर लाया गया । जिसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:\***

पिन्टू शाह पुत्र स्व0 नथूनी शाह निवासी मोहल्ला लक्ष्मीनगर केलुहा पैगम्बरपुर बैरिया थाना अहियापुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार ।

**\*आपराधिक इतिहास:\***

मु0अ0सं0 464/2019 धारा 420 / 406 भादवि

**\*पुलिस टीम का विवरण:\***

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।
2. उ0नि0 श्री नरेश चन्द्र थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 348 संतोष उपाध्याय थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।